

चेतावनी : इस कथन में दिया गया व्यक्तिगत डेटा सही और पूर्ण होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो धोखे से संपत्ति/अजीबोगरीब लाभ प्राप्त करता है, दण्ड अध्यादेश, अध्याय 210 के तहत अधिकतम 10 साल की कैद की सजा का उत्तरदायी है।

नमूना II: लाभ और हानि खाता

(स्व-नियोजित टैक्सी चालक / लॉरी चालक / मिनीबस चालक आदि के लिए)
(सीधे भरा जा सकता है)

नमूना III: लाभ और हानि खाता

(कारोबार चलाने वाले व्यक्ति के लिए (एकल स्वामित्व/साझेदारी कारोबार सहित))
(सीधे भरा जा सकता है)

लिखित कारोबार में शामिल परिवार के सदस्य का नाम : _____ टैक्सी ड्राइवर/लॉरी ड्राइवर/मिनीबस ड्राइवर (कृपया घेरा लगाएं) वाहन का स्वामी/वाहन का पट्टेदार (कृपया घेरा लगाएं) लाइसेंस संख्या (केवल वाहन स्वामियों के लिए) : _____ (I) लाभ और हानि खाता (1 अप्रैल 2024 से 3 मार्च 2025 तक) आय (HK\$) 1. किराया (केवल वाहन स्वामी के लिए) \$ _____ 2. कारोबार प्रचालन से लाभ \$ _____ 3. अन्य (कृपया सभी मदें लिखें और राशियों का अलग-अलग ब्यौरा दें) \$ _____ (A) कुल आय \$ _____ व्यय (वाहन रेहन के अलावा) (HK\$) (1 और 2 वाहन पट्टेदार पर, और 2 से 5 वाहन स्वामी पर लागू होते हैं) 1. वाहन किराया शुल्क \$ _____ 2. ईंधन प्रभार \$ _____ 3. बीमा प्रीमियम \$ _____ 4. रख रखाव शुल्क \$ _____ 5. लाइसेंस शुल्क \$ _____ 6. अन्य (कृपया सभी मदें लिखें और राशियों का अलग-अलग ब्यौरा दें) \$ _____ (B) कुल व्यय \$ _____ निवल लाभ [(A) कुल आय - (B) कुल व्यय*] \$ _____ (इस राशि को पारिवारिक आवेदन प्रपत्र के भाग IV में लिखा जाना चाहिए) *यदि कुल आय कुल व्यय (यानि (A)-(B) < 0) है, तो घाटे की गणना नहीं की जाएगी यानि कारोबार में नुकसान को सकल पारिवारिक आय में से नहीं घटाया जा सकता है टिप्पणी (आय साक्ष्य प्रदान करने में सक्षम न होने का कारण): _____ (II) मासिक कार्यकारी घंटे (समूह आयु 0-3 के लिए पूर्ण-दिवसीय किंडरगार्टन/शिशु देखभाल केन्द्र शुल्क माफी के लिए) प्रति माह _____ घंटे काम। उपरोक्त कारोबार में शामिल परिवार के सदस्य के हस्ताक्षर (यदि आवेदक नहीं है) _____ आवेदक का नाम : _____ आवेदक HKID संख्या : _____ आवेदक के हस्ताक्षर : _____ तिथि : _____	निम्नलिखित कर्पनी को प्रचालित करने वाले परिवार के सदस्य का नाम (स्वामी) : _____ कंपनी का नाम : _____ कारोबार की प्रकृति : _____ कंपनी पता : _____ एकल स्वामित्व या साझेदारी : _____ (_____ %) (यदि यह साझेदारी है, तो कृपया लाभ साझाकरण अनुपात का उल्लेख करें उदाहरणतः साझेदारी) (50%)) (I) लाभ और हानि खाता (1 अप्रैल 2024 से 3 मार्च 2025 तक) (A) सकल आय (HK\$) \$ _____ व्यय (HK\$) (कंपनी के प्रचालन की लागत निम्नलिखित है और इसमें किसी भी परिवार व्यय को शामिल नहीं किया जाना चाहिए।) मर्चेंडाइज खरीदने की लागत \$ _____ पानी संबंधी प्रभार \$ _____ बिजली प्रभार \$ _____ गैस प्रभार \$ _____ टेलीफोन प्रभार \$ _____ किराया और रेंट्स \$ _____ नीचे # चिन्हित कर्मचारियों के अलावा कर्मचारी \$ _____ परिवहन लागत \$ _____ यात्रा व्यय \$ _____ बीमा प्रीमियम \$ _____ मशीनरी की मरम्मत और रखरखाव का शुल्क \$ _____ अन्य (कृपया सभी मदें लिखें और राशियों का अलग-अलग ब्यौरा दें) \$ _____ अन्य व्यय (HK\$) # इस कंपनी द्वारा अदा किया गया स्वामी का वेतन \$ _____ # इस कंपनी द्वारा अदा किया गया परिवार के अन्य सदस्य का वेतन (नाम : _____) \$ _____ (B) कुल व्यय (HK\$) \$ _____ परिवार आय = (A) सकल आय - (B) कुल व्यय* + इस कंपनी द्वारा अदा किया गया स्वामी/परिवार के अन्य सदस्य का वेतन # = HK\$ (इस राशि को पारिवारिक आवेदन प्रपत्र के भाग IV में भरा जाना चाहिए) *यदि सकल आय कुल व्यय से कम है (यानि (A)-(B) < 0) घाटे की गणना नहीं की जाएगी यानि कारोबार में नुकसान को सकल पारिवारिक आय में से नहीं घटाया जा सकता है टिप्पणी (आय साक्ष्य प्रदान करने में सक्षम न होने का कारण): _____ (II) मासिक कार्यकारी घंटे (समूह आयु 0-3 के लिए पूर्ण-दिवसीय किंडरगार्टन/शिशु देखभाल केन्द्र शुल्क माफी के लिए लागू) प्रति माह _____ घंटे काम। स्वामी के हस्ताक्षर (यदि आवेदक नहीं है) : _____ आवेदक का नाम : _____ आवेदक HKID संख्या : _____ आवेदक के हस्ताक्षर : _____ तारीख : _____
---	---

नमूना IV: आय का स्वंय तैयार किया गया विवरण
(हॉर्कर्स / सामान्य कामगार / नैमित्तिक कामगार जो आय साक्ष्य प्रदान नहीं कर सकते हैं)
(कृपया निम्नलिखित सभी मदों को भरें)
(इसे सीधे भरा जा सकता है)

चेतावनी : इस कथन में दिया गया व्यक्तिगत डेटा सही और पूर्ण होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो धोखे से संपत्ति / मौद्रिक लाभ प्राप्त करता है, दण्ड अध्यादेश, अध्याय 210 के तहत अधिकतम 10 साल की कैद की सजा पर उत्तरदायी है।

निम्नलिखित व्यवसाय में लगे परिवार के सदस्य का नाम :

(प्रत्येक स्व-तैयार आय ब्रेकडाउन में केवल एक परिवार के सदस्य की आय की जानकारी होनी चाहिए।)

इस परिवार के सदस्य और आवेदक के बीच संबंध : * आवेदक / पति / पत्नी/ संतान
(* कृपया अनुचित आइटम हटाएं)

उद्योग की प्रकृति (उदाहरण निर्माण) :

पद (जैसे सामान्य कामगार) :

वास्तविक आय

(कृपया वास्तविक आंकड़ा भरें। यदि आपके पास एक विशिष्ट महीने में कोई आय नहीं है, तो कृपया \$ 0 भरें। किसी भी महीने को खाली न छोड़ें। इसके अलावा, बकाया राशि में किए गए भुगतान के लिए, उदाहरण के लिए, यदि आपके वेतन का भुगतान दिनांक अप्रैल के लिए मई में है, आपको अप्रैल के महीने में वेतन राशि भरना चाहिए, आदि।)

2024

अप्रैल :HK \$

मई :HK \$

जून :HK \$

जुलाई :HK \$

अगस्त :HK \$

सितंबर

अक्टूबर

नवंबर

दिसंबर

:HK \$

:HK \$

:HK \$

:HK \$

2025

जनवरी :HK \$

फरवरी :HK \$

मार्च :HK \$

कुल वार्षिक आय HK \$

भुगतान विधि (कृपया उपयुक्त बॉक्स में "✓" डालें। एक से अधिक आइटम का चयन किया जा सकता है।)

☐

A. नकद / नकद चेक द्वारा

☐

B. चेक / डायरेक्ट क्रेडिट द्वारा

(कृपया बैंक खातेदार का नाम दिखाने वाले पृष्ठ के साथ लेनदेन रिकॉर्ड की एक प्रति प्रदान करें, प्रविष्टियों को सर्कल करें और सत्यापन के लिए रंग के साथ कुल राशि को हाइलाइट करें। आय के अलावा किसी भी प्रविष्टि के लिए, कृपया, उनके बगल में आवश्यक टिप्पणी भी करें, अन्यथा आपकी पारिवारिक आय की गणना में SFO राशि शामिल कर सकता है।)

कृपया आय का प्रमाण न दे पाने का कारण बताएं (उदाहरण के लिए, हॉर्कर के रूप में कोई नियोक्ता नहीं; वह कंपनी बंद हो गई है, जिसके लिए मैंने / मेरे परिवार के सदस्य ने कार्य किया था, आदि) (यदि आवेदक उचित स्पष्टीकरण देने में असमर्थ है, तो उसके आवेदन पर SFO द्वारा आगे कार्यवाही नहीं की जाएगी।)

मासिक कार्य घंटे (केवल 0-3 वर्ष की आयु के समूह के लिए पूरे दिन के किंडरगार्टन / बाल देखभाल केंद्र शुल्क छूट के आवेदन पर लागू।) प्रति माह _____ घंटे काम करना।

घोषणा: मैं घोषित करता (ती) हूँ कि उपरोक्त जानकारी सत्य और पूर्ण है।

उपरोक्त व्यवसाय में लगे परिवार के सदस्य का हस्ताक्षर (यदि आवेदक नहीं है) :

आवेदक का नाम :

आवेदक HKID संख्या :

आवेदक का हस्ताक्षर :

दिनांक :